

प्रेस नोट दिनांक-21.11.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्री हरिओम कुशवाहा पुत्र बैजनाथ निवासी कुशवाहापुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी लडाई-झगड़ा कर ली है एवं मायके चली गयी है, आ नहीं रही है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया । उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र तथा मुख्य आरक्षी अरुण कुमार द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर सभी को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा । इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 21.11.2020 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी ।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्री मनोज कुमार पुत्र रामखिलावन निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पत्नी श्रीमती मैना लडाई-झगड़ा करके जेवर लेकर मायके चली गयी है, आ नहीं रही है । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया । उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र तथा मुख्य आरक्षी अरुण कुमार द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर सभी को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा । इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 21.11.2020 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 21.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा राजकीय इण्टर कॉलेज एवं कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी एवं एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा स्व0 दादू भाई इण्टर कॉलेज मारकुण्डी में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा ग्राम छिछरिया खुर्द में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बालिका इण्टर कॉलेज मऊ में एवं कस्बा मऊ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बालिका इण्टर कॉलेज मानिकपुर में एवं आदर्श इटर कॉलेज के आस-पास भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा बाजार, प्रमुख चौराहा, रेलवे स्टेशन, स्कूल के आस-पास भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा भ्रमण कर

छात्राओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(4). आज दिनांक-21.11.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मिश्रित शराब एवं अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे देशी/अंग्रेजी शराब की दुकानों की चेकिंग हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उपजिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में श्री अरूण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी तथा आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कर्वी शहर में, श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम माराचन्द्रा, ग्राम सेमरदहा, ग्राम ऐंचवारा में, चौकी शिवरामपुर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शिवरामपुर में, उपजिलाधिकारी महोदय मानिकपुर के नेतृत्व में श्री के0के0 मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मानिकपुर में, श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम मुक्का में, थाना भरतकूप पुलिस द्वारा ग्राम अकबरपुर में, श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सरकारी अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानों का निरीक्षण कर दुकान के स्टॉक रजिस्टर से उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया गया एवं बिक्री की जा रही शराब के नमूने एकत्रित किये गये।